



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 1976/भाद्र 15, 1898

No. 397] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1976/BHADRA 15, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th September 1976

**S.O. 595(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by State Bank of Bikaner & Jaipur, establishes, with effect from the 6th September, 1976, a Regional Rural Bank under the name of Marwar Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Pali, Sirohi and Jalore in the State of Rajasthan.

[No. F. 4-82/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1976

का० प्रा० 595 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के अनुरोध पर 6 सितम्बर, 1976 से 'मारवाड़ ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक राजस्थान राज्य के पाली, सिरोही और जालौर जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एक० 4-82/76-ए सी (1)]

**S.O. 596(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Bikaner & Jaipur, by which Marwar Gramin Bank has been sponsored, specifies Pali as the place where Marwar Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4-82/76-AC(II)]

**का० प्रा० 596 (अ).**—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के तथा मारवाड़ ग्रामीण बैंक के प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के परामर्श से 'पाली' को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर मारवाड़ ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एक० 4-82/76-ए सी (2)]

**S.O. 597(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Marwar Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-82/76-AC(III)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

**का० प्रा० 597 (अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मारवाड़ ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एक० 4-82/76-ए सी (3)]

एम० जी० बालसुब्रमण्यन्, अपर सचिव।

### RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 6th September 1976

**S.O. 598(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Marwar Gramin Bank, Pali.

[DBOD. No. 128/INCL./C.102-76]

K. S. KRISHNASWAMY, Dy. Governor.

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 6 सितम्बर, 1976

का० आ० 598 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली ।

[डी० बी० ओ० डी० सं० 128 आई० एन० सी० एल० सी-102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

